

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 15—अप्रैल 21, 2017 (चैत्र 25, 1939)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15—APRIL 21, 2017 (CHAITRA 25, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 मार्च 2017

सं. डीपीपर्स-I2017/107/3/58/2014-पर्स-1—श्री राँय अलेक्जेंडर, अपर पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो, दि.वि.पु.स्थापना, एसीबी, हैदराबाद ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उपरांत दिनांक 02.05.2016 के पूर्वाह्न से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अपर पुलिस अधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी.के.वर्मा

उप-निदेशक (कार्मिक)

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपूर, दिनांक 15 मार्च 2017

सं. ए: 19011/608/2010 स्था. ए.—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री प्रेम प्रकाश, वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक को भारतीय खान ब्यूरो, भुवनेश्वर में दिनांक 01.04.2016 (पूर्वाह्न) से उप खान नियंत्रक के पद पर पदोन्नति की जाती है।

जितेन्द्र कुमार
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

(भारी पानी बोर्ड)

मुंबई-400094, दिनांक 23 मार्च 2017

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-कोटा/2017/1974—भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, श्री अब्दुल करीम खान, सहायक (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7), पऊवि, मुंबई को दिनांक 20.02.2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 में भारी पानी संयंत्र, कोटा में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी -III

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-मणुगुरु/2017/1976—भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, श्री के. किरण कुमार, सहायक (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7), पखनि, हैदराबाद को दिनांक 01.02.2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 में भारी पानी संयंत्र, मणुगुरु में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी -III

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-बडौदा/2017/1978—भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, श्रीमती निर्मला सांखला, सहायक (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7), भापाबो (कें. का), को दिनांक 30.01.2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 में भारी पानी संयंत्र, बडौदा में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय)

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 7 मार्च 2017

सं. आरओसीपी/एफटीई/560(5)/2017/6888—कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :—

क्रम सं.	सी.आई.एन.	कम्पनियों के नाम
1	U45200PN2008PTC132862	युएसबी इंफ्रास्ट्रक्चर अँड कन्सलटन्सी सेर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2	U72900PN2010PTC135769	जीकेएस सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
3	U74900PN2013PTC146019	अरोहा हायड्रो सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
4	U29299PN2010PTC135448	युरोएसियाटिक इंडीया प्रायव्हेट लिमिटेड
5	U51909PN2002PTC016874	ओम साई ट्रेडिंग कम्पनी प्रायव्हेट लिमिटेड
6	U72300PN2006PTC129329	पराबल सॉफ्टवेयर रिसर्च लैब्स प्रायव्हेट लिमिटेड
7	U72200PN2008PTC131353	अल्ट्राव्हिजन इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
8	U70102PN2007PTC129410	मासुमी प्रॉपरटीज प्रायव्हेट लिमिटेड
9	U28910PN2015PTC154542	कॅम्पर डेकार्ड इंडीया प्रायव्हेट लिमिटेड

क्रम सं.	सी.आई.एन.	कम्पनियों के नाम
10	U74900PN2014PTC151334	वन नीड टेक्सटाईल प्रायव्हेट लिमिटेड
11	U65999PN2004PTC019918	सुबोध फायनान्सिशल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
12	U74900PN2012PTC144440	वलितो इन्टीग्रेटेड प्रायव्हेट लिमिटेड
13	U51909PN2014PTC151455	निकोराम इंडीया प्रायव्हेट लिमिटेड
14	U74900PN2015PTC154215	प्रिस्टार टेक कन्सलटन्सी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
15	U14102PN1999PTC013653	कल्पतरु ग्रेनाइट्स अँड मार्बल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
16	U74900PN2014PTC150224	वेगा न्यूट्रिशनलस प्रायव्हेट लिमिटेड
17	U74900PN2008PTC131817	ओमकार ट्रेनिंग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
18	U72900PN2014PTC153003	ओजसवर्क्स टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
19	U29268PN2010PTC137888	पटसाई इन्जीनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
20	U74900PN2013PTC146475	मैन्टोप्लस कॉरपोरेट कन्सलटन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
21	U74999PN2009PTC133530	विस्टा फ्लोकास्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
22	U72900PN2012PTC145362	मोबिवेलॉक्स म-कॉमर्स सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
23	U29253PN2014PTC150141	एनव्हिएम टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
24	U74900PN2012PTC145764	इम्प्रिसइन्ड कन्सलटिंग अँड इन्जीनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
25	U45200PN2009PTC135225	एमबीआर इन्फ्रास्ट्रक्चरस प्रायव्हेट लिमिटेड
26	U80302PN2015PTC154830	विश्वा एज्युकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
27	U52399PN2011PTC141592	इमॅजीन साऊंड अँड व्हिजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड
28	U15203PN2015PTC156092	अरव्ह्युम अँगो फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
29	U22190PN2009PTC134769	रूवी मॉईन प्रिन्ट्स (इंडीया) प्रायव्हेट लिमिटेड
30	U29100PN2011PTC140013	आइऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडीया प्रायव्हेट लिमिटेड
31	U74900PN2015PTC153692	तिरुपती फॅसिलिटी मैनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
32	U74140PN2004PTC019927	टॅनेट टेक्नॉलॉजी रिसोर्सिस प्रायव्हेट लिमिटेड
33	U74900PN2015PTC153699	तिरुपती एचआर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
34	U80902PN2012PTC145014	इदुशेपर्स टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड
35	U01122PN2011PTC138419	एसीएमई हर्बल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
36	U29299PN2010PTC136921	चिली कम्पोसाइट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
37	U01119PN2005PLC021432	सॅनकॉर्न अँगो प्रायव्हेट लिमिटेड
38	U72900PN2012PTC143601	पासिओ ड्रिंग सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
39	U29223PN2007PTC140928	ऑस्कर ब्रोड्रियाट मशीन्स (इंडीया) प्रायव्हेट लिमिटेड
40	U27109PN2010PTC136117	रत्नागिरी मेटल रिसायकलिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
41	U74900PN2010PLC136724	पुणे रेस्टोरेशन अँड नेव्हीगेशन कम्पनी लिमिटेड
42	U74900PN2010PTC136266	घास कन्सलटन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
43	U29300PN2012PTC142268	कोनार्क हिट टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड

क्रम सं.	सी.आई.एन.	कम्पनियों के नाम
44	U51420PN2006PTC136185	श्रीनिवासा मिनरल्स अँड मेटल प्रायव्हेट लिमिटेड
45	U24219PN2012PTC144651	मिशन केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
46	U51420PN2005PTC021380	अक्शता सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
47	U72200PN2008PTC131527	डीएसडब्ल्यू कंन्सलटन्ट्स इंडीया प्रायव्हेट लिमिटेड
48	U74910PN2007PTC130770	एआर मायग्रेशन सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
49	U15500PN2013PTC148892	त्रिओरा फुडस अँड बेव्हेरेजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
50	U74900PN2011PTC141168	स्टेरिओस्कोपिक प्रिसिजन प्रायव्हेट लिमिटेड
51	U72200PN2006PTC131055	सिन्चरो कास्ट मेटल सॉफ्टवेयर सिस्टिम प्रायव्हेट लिमिटेड
52	U85100PN2012PTC143940	शुभंकर हॉस्पिटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
53	U80903PN2012PTC144863	व्हर्चु एज्युकेशनल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
54	U74999PN2011PTC140949	इलाइट मोबीटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
55	U70106PN2012PTC145574	ट्वेन्टीवन इंजीनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
56	U15426PN2011PTC138652	उदगीरी शुगर वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
57	U63090PN2015PTC154161	एक्सप्रेसशंस टुर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
58	U74900PN2014PTC153560	एबीआर स्क्वेअर टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
59	U74900PN2013PTC149605	रिनयज़न्स टेकस्स प्रायव्हेट लिमिटेड
60	U74900PN2013PTC146073	टीमडेस्क कॉरपोरेट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
61	U72200PN2008PTC131253	बारामती इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
62	U31909MH1995PTC089964	सायरेक टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड
63	U36998PN2011PTC139669	रा भी अँडव्हान्सड मटेरिअल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
64	U74999PN2009PTC134994	रिवेट टैलेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
65	U45200PN2011PTC140963	फोटॉन रिऑलिटी प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड

अमोल शींदे
उप कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 28 मार्च 2017

सं. क.र.(प.ब.)560/एफटीई-2017—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 15 कम्पनियों (पंद्रह कम्पनियों) के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :—

क्रम सं.	सी.आई.एन.	कम्पनियों के नाम
1	U29253WB2015PTC207275	आईसेक्युओर ऑटोमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U74999WB2011PTC165162	पुष्पा कॉटन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
3	U28129WB2002PTC094274	एवरग्रीन कैन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सी.आई.एन	कम्पनियों के नाम
4	U45400WB2013PTC192622	शिवम-रिचमंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U74900WB2013PTC194748	रैब्स डाइरेक्ट टैक्स कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
6	U70109WB2009PTC138663	शांति नीर प्राइवेट लिमिटेड
7	U01111WB2008PTC130135	एमआर प्रिस्म अग्रो प्राइवेट लिमिटेड
8	U52190WB2012PTC175284	अमय वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
9	U52190WB2012PTC175442	शुबन वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
10	U93000WB2010PLC152598	अभिजीत टैलेंट लिमिटेड
11	U74900WB2014PLC199543	केटीआई ग्लोरियस सीमेंट लिमिटेड
12	U74900WB2013PTC192824	स्वप्नोआशा कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
13	U31109WB1997PTC085002	रामदेव इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
14	U70102WB2013PTC189936	प्लश प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U74999WB2012PTC181165	पीएनपीआइ बिजनस सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड

एन. चिन्नाचामी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 7th March 2017

No. F.20/2017-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote Ms. Meena Khemani, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books as Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) with effect from forenoon of 03.03.2017.

BADR-UL-ISLAM
Additional Registrar (Admn.I)

No. F.20/2017/SCA(1)—Ms. Meena Nayyar, Assistant Registrar and Ms. Jaswinder Kaur, Branch Officer have retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of February 28, 2017 on their attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Additional Registrar (Admn.I)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

(DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT)

New Delhi-110003, the 10th March 2017

No. DPPERS.I/2017/107/3/58/2004-Pers-I—Sh. Roy Alexander, Additional Supdt. of Police, CBI, DSPE, ACB, Hyderabad, has relinquished charge of the post of Additional Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 02.05.2016 on Voluntary Retirement.

G. K. VERMA
Deputy Director (Pers.)

MINISTRY OF MINES

(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 15th March 2017

No. A-19011/608/2010-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Shri Prem Prakash, Senior Assistant Controller of Mines is promoted to the post of Deputy Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Bhubaneshwar w.e.f 01.04.2016 (F.N.).

JITENDER KUMAR
Assistant Administrative Officer
For Controller General

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai-400094, the 23rd March 2017

No. HWB/R/1(8)-Kota/2017/1974—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Abdul Karim Khan, Assistant (Level 7 in the Pay matrix) DAE, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Level 8 in the Pay matrix in Heavy Water Plant, Kota from the Forenoon of 20th February, 2017 until further orders.

K. S. PILLAI
Administrative Officer-III

No. HWB/R/1(8)-Manuguru/2017/1976—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri K. Kiran Kumar, Assistant (Level 7 in the Pay matrix) AMD, Hyderabad to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Level 8 in the Pay matrix in Heavy Water Plant, Manuguru from the Forenoon of 01st February, 2017 until further orders.

K. S. PILLAI
Administrative Officer-III

No. HWB/R/1(8)-Baroda/2017/1978—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. Nirmala Sankhla, Assistant (Level 7 in the Pay matrix) HWB [CO] to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Level 8 in the Pay matrix in Heavy Water Plant, Baroda from the Forenoon of 30th January, 2017 until further orders.

K. S. PILLAI
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following companies

Pune-411004, the 7th March 2017

No. ROC/PTE/560(5)/2017/6888—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act 1956, that the name of following companies have this day been struck off from the Register and these companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1	U45200PN2008PTC132862	USB INFRASTRUCTURE AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
2	U72900PN2010PTC135769	GKS SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
3	U74900PN2013PTC146019	AROHA HYDRO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4	U29299PN2010PTC135448	EUROASIATIC INDIA PRIVATE LIMITED
5	U51909PN2002PTC016874	OM SAI TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
6	U72300PN2006PTC129329	PARABLE SOFTWARE RESEARCH LABS PRIVATE LIMITED
7	U72200PN2008PTC131353	ULTRAVISION INFOTECH PRIVATE LIMITED
8	U70102PN2007PTC129410	MASUMI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
9	U28910PN2015PTC154542	CASPER DECOR INDIA PRIVATE LIMITED
10	U74900PN2014PTC151334	ONE NEED TEXTILE PRIVATE LIMITED
11	U65999PN2004PTC019918	SUBODH FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
12	U74900PN2012PTC144440	VALETO INTEGRATED ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
13	U51909PN2014PTC151455	NECORAM INDIA PRIVATE LIMITED
14	U74900PN2015PTC154215	PRESTAR TECH CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
15	U14102PN1999PTC013653	KALPATARU GRANITES AND MARBLES PRIVATE LIMITED
16	U74900PN2014PTC150224	VEGA NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED
17	U74900PN2008PTC131817	OMKAR TRAINING SERVICES PRIVATE LIMITED
18	U72900PN2014PTC153003	OJASWORKS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
19	U29268PN2010PTC137888	PATSAI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
20	U74900PN2013PTC146475	MENTOPLUS CORPORATE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
21	U74999PN2009PTC133530	VISTA FLOWCAST PRIVATE LIMITED
22	U72900PN2012PTC145362	MOBIVELOX M-COMMERCE SERVICES PRIVATE LIMITED
23	U29253PN2014PTC150141	NVM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
24	U74900PN2012PTC145764	IMPRESIND CONSULTING & ENGINEERING PRIVATE LIMITED
25	U45200PN2009PTC135225	MBR INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
26	U80302PN2015PTC154830	VISHWA EDUCOM PRIVATE LIMITED
27	U52399PN2011PTC141592	IMAGINE SOUND & VISION DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED
28	U15203PN2015PTC156092	ARVUM AGRO FOODS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	Name of the Company
29	U22190PN2009PTC134769	RUWI MODERN PRINTERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
30	U29100PN2011PTC140013	AAEON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED
31	U74900PN2015PTC153692	TIRUPATI FACILITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
32	U74140PN2004PTC019927	TANNET TECHNOLOGY RESOURCES PRIVATE LIMITED
33	U74900PN2015PTC153699	TIRUPATI HR SERVICES PRIVATE LIMITED
34	U80902PN2012PTC145014	EDUSHAPERS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
35	U01122PN2011PTC138419	ACME HERBALS PRIVATE LIMITED
36	U29299PN2010PTC136921	CHILLI COMPOSITES PRIVATE LIMITED
37	U01119PN2005PLC021432	SANCORN AGRO PROCESSING LIMITED
38	U72900PN2012PTC143601	PASEO ZING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
39	U29223PN2007PTC140928	OSKAR BROZIAT MACHINES (INDIA) PRIVATE LIMITED
40	U27109PN2010PTC136117	RATNAGIRI METAL RECYCLING PRIVATE LIMITED
41	U74900PN2010PLC136724	PUNE RESTORATION & NAVIGATION COMPANY LIMITED
42	U74900PN2010PTC136266	GHAS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
43	U29300PN2012PTC142268	KONARK HEAT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
44	U51420PN2006PTC136185	SRINIVASA MINERALS AND METALS PRIVATE LIMITED
45	U24219PN2012PTC144651	MISSION CHEMICALS PRIVATE LIMITED
46	U51420PN2005PTC021380	AKSHATA SALES PRIVATE LIMITED
47	U72200PN2008PTC131527	DSW CONSULTANTS INDIA PRIVATE LIMITED
48	U74910PN2007PTC130770	AR MIGRATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
49	U15500PN2013PTC148892	TRIAURA FOOD & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
50	U74900PN2011PTC141168	STEREOSCOPIC PRECISION PRIVATE LIMITED
51	U72200PN2006PTC131055	SYNCHRO CAST METAL SOFTWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
52	U85100PN2012PTC143940	SHUBHANKAR HOSPITALS PRIVATE LIMITED
53	U80903PN2012PTC144863	VIRTUE EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
54	U74999PN2011PTC140949	ELITE MOBITECH PRIVATE LIMITED
55	U70106PN2012PTC145574	TWENTYONE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
56	U15426PN2011PTC138652	UDAGIRI SUGAR WORKS PRIVATE LIMITED
57	U63090PN2015PTC154161	XPRESSION'S TOURS PRIVATE LIMITED
58	U74900PN2014PTC153560	ABR SQUARE TECH PRIVATE LIMITED
59	U74900PN2013PTC149605	RENAIZANCE TECHSYS PRIVATE LIMITED
60	U74900PN2013PTC146073	TEAMDESK CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
61	U72200PN2008PTC131253	BARAMATI INFOTEK PRIVATE LIMITED
62	U31909MH1995PTC089964	CYREK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
63	U36998PN2011PTC139669	RAA BHI ADVANCED MATERIALS PRIVATE LIMITED
64	U74999PN2009PTC134994	RIVET TALENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
65	U45200PN2011PTC140963	PHOTON REALTY PROJECTS PRIVATE LIMITED

AMOL SHINDE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 28th March 2017

No. ROC (WB)/560/FTE-2017—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 15 Companies (Fifteen Companies) have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1	U29253WB2015PTC207275	EYESECURE AUTOMATIONS PRIVATE LIMITED
2	U74999WB2011PTC165162	PUSHPA COTTON WORKS PRIVATE LIMITED
3	U28129WB2002PTC094274	EVERGREEN CANS PRIVATE LIMITED
4	U45400WB2013PTC192622	SHIVAM-RICHMOND PROJECTS PRIVATE LIMITED
5	U74900WB2013PTC194748	RABS DIRECT TAX CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
6	U70109WB2009PTC138663	SHANTI NEER PRIVATE LIMITED
7	U01111WB2008PTC130135	MR PRISM AGRO PRIVATE LIMITED
8	U52190WB2012PTC175284	AMAY VANIJYA PRIVATE LIMITED
9	U52190WB2012PTC175442	SHUBAN VANIJYA PRIVATE LIMITED
10	U93000WB2010PLC152598	ABHIJEET TALENT LIMITED
11	U74900WB2014PLC199543	KTI GLORIOUS CEMENT LIMITED
12	U74900WB2013PTC192824	SWAPNOASHA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
13	U31109WB1997PTC085002	RAMDEV ISPAT PRIVATE LIMITED
14	U70102WB2013PTC189936	PLUSH PROJECTS PRIVATE LIMITED
15	U74999WB2012PTC181165	PNPI BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

N. CHINNACHAMY
Deputy Registrar of Companies
West Bengal

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.1]

BANSHI DHAR DUBEY

Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2017.04.15 09:51:00 +05'30'